



क्रमांक-2

## मध्यप्रदेश विधान सभा

### संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2020 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1941)

विधान सभा अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

#### 1. अध्यक्षीय घोषणा

**माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विश्वास मत हेतु सदन की विशेष बैठक आहूत की जाना**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक W.P. (s) (Civil) 439/2020 में पारित आदेश दिनांक 19 मार्च, 2020 की अपेक्षानुसार विश्वास के प्रस्ताव पर मत विभाजन हेतु आज सदन की विशेष बैठक आहूत की गई. चूंकि माननीय मुख्यमंत्री, श्री कमलनाथ के नेतृत्व में वर्तमान सरकार का त्यागपत्र दे दिया गया है, अतः अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्णित आदेश के अनुपालन की उपादेयता समाप्त हो गई है."

(कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यगण सदन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहे)

#### 2. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

#### 3. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 2.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:  
दिनांक: 20 मार्च, 2020

ए. पी. सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.